

Regd. & Corp. Off.: S.C.O. 18-19, Sector 28-C,

Chandigarh-160 002, INDIA

Tel.: +91 172 4668 000, Toll Free: 18008891120 E-mail: info@jtlinfra.com, Website: www.jtlinfra.com

Date: 19<sup>th</sup> October, 2022

CIN No.: L27106CH1991PLC011536

JTLIL/CHD/SE/2022-23/054

Corporate Relationship Department, BSE Limited. 25<sup>th</sup> Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001.

BSE Scrip Code: 534600 MSEI Symbol: JTLINFRA

Corporate Relationship Department, Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. 4th floor, Vibgyor tower, Opposite Trident Hotel, Bandra-Kurla Complex Mumbai-400 098.

Sub: Newspaper Advertisement on Notices of the Meetings convened by the National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench (NCLT) of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of JTL Infra Limited in the matter of proposed Scheme of Arrangement for Amalgamation of Chetan Industries Limited ("CIL") and JTL Infra Limited ("JTLIL"/"the Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme of Arrangement")

Ref.: <u>Disclosure under Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India</u>
(<u>Listing Obligations and Disclosure Requirements</u>) Regulations, 2015.

Dear Sir / Ma'am,

Please find enclosed herewith the following newspaper advertisements convening the meetings of the Equity Shareholders, Secured and Unsecured creditors of JTL Infra Limited published in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) on October 18, 2022 in Chandigarh Edition and All India Edition.

You are kindly requested to take the same on records.

Yours faithfully,

For & on behalf of JTL Infra Limited

MOHINDER SINGH

Digitally signed by MOHINDER SINGH

Date: 2022.10.19 14:41:05 +05'30'

Mohinder Singh Company Secretary

Enclosure: As Above

**FINANCIAL EXPRESS** 

# RBI norms on ARCs to cut funding needs, says Crisil

**FE BUREAU** Mumbai, October 17

THE **STRUCTURAL CHANGES** issued by the Reserve Bank of India's (RBI) norms regarding the asset reconstruction companies (ARC) will result into lower funding requirement, along with improved governance and better disclosures by such entities, ratings agency Crisil Ratings said in a report. The minimum investment requirement for the ARCs is

likely to come down by over

80% in some scenarios,

according to the agency. As per the new norms, ARCs have to invest a minimum 15% in security receipts, compared to the transferor's investment, or 2.5% of the total receipts issued, whichever is higher. Earlier, ARCs had to invest at least 15% of the receipts even if there were other investors

"The revision in the minimum investment in security receipts is a significant benefit for ARCs. This will free up their funds and support growth over the medium term," Subha Sri Narayanan, director at the agency, said.

Along with lower funding requirement for acquisitions, the agency also sees the option available to the ARCs to partic-

meet that criteria as on March MORE OPTIONS MADE AVAILABLE 31,2022. ■ The minimum investment requirement for the ARCs is

Additionally, the resolution process is likely to fasten due to guidelines such as charging management fees only from recovery of underlying assets and requiring to retain a rating from a credit rating agency for at least three years, Crisil said.

(NARCL) less than five ARCs

However, the norms also require ARCs to increase net owned funds to ₹300 crore from ₹100 crore by March 2026, which could be challenging for some of the smaller ones, according to the agency.

"More than half of the ARCs have net-owned funds lower than the increased requirement of ₹300 crore. A number of them may not be able to bring in additional capital. Therefore, over time, these developments could lead to consolidation in the industry," Gautam Shahi, director at Crisil, said.

-REUTERS

**JPMorgan** 

Wadhwani

i-banking

Bengaluru, October 17

JPMORGAN CHASE & Co said

on Monday it named former

Reliance Industries executive

Navin Wadhwani as the head

of its Indian investment bank-

ing business, under a slew of

management changes for the

Asia-Pacific region. Wadhwani

has headed M&A for oil-to-

retail conglomerate Reliance

for the past 10 years and was

previously a senior managing

tubh Kulkarni as senior country

officer for India from Nov. 1. He

will continue in his role as vice

chair of Asia Pacific. Kulkarni

succeeds Madhav Kalyan, who

will now head the U.S. banking

giant's Asia Pacific Payments.

Vineet Mishra will become sole

head of Investment Banking for

Southeast Asia. PD Singh has

been named interim CEO of JP

Morgan Chase Bank India from

it has decided to pay the

penalty to avoid "unnecessary

pany, a joint venture between

Max Financial Services and

Axis Bank, however, said it is of

the belief of "not committing

any wrongdoing" in the Axis

Írdai on Thursday said the

Bank-Max Life deal.

The life insurance com-

and long legal escalations".

November 1.

JPM also appointed Kaus-

director at Rothschild India.

**REUTERS** 

names Navin

India head for

# ANALYST VIEW

# RBI forwards intervention may hurt rupee defence

**NIMESH VORA** Mumbai, October 17

THE RESERVE BANK of India's (RBI) forex intervention through forward dollar sales, instead of an on-spot basis, may undermine its effort to boost the rupee, analysts said.

Since last week, the central bank has been intervening in the over-the-counter forward market that lifted the rupee from record lows of 82.6825 to the dollar. The central bank has been

ducting buy/sell swaps to shift the delivery of dollars to a future date. A buy/sell swap involves an agreement to buy dollars at the

selling dollars in spot and con-

spot date and to sell dollars at a future predetermined rate. The difference between the

sell rate and the buy rate is the forward premium.

The buy/sell swaps by the RBI have prompted forward premiums on the rupee to plunge. For instance, the 1-year USD/INR implied yield or the

cost of carry has dropped to a 11-year low of 2.45% from an intraday high of over 3.07% on October 10.

The fall in forward premiums reduces the cost of carrying or holding dollar positions and leads to higher demand for dollar from importers.

For the same level of spot, it is now cheaper for importers to buy dollars for a later date.

"RBI reducing cost of carry while wanting to defend the rupee seems counterintuitive," said Abhishek Goenka, founder and CEO of forex advisory firm IFA Global. As to reasons the RBI may

be selling dollars forward and not on spot basis, Goenka said the central bank does not want its spot dollar sales to impact banking system liquidity, which is perilously close to getting into deficit.

Another reason could be that RBI would be concerned "about the optics of falling forex reserves making headlines every week", Goenka said.

Max Life decides to pay ₹3-cr penalty

India's foreign exchange

Rupee ends almost flat

The rupee ended flat on Monday, while its Asian counterparts dropped on recession fears, as the Reserve Bank of India's likely intervention continued supporting the currency. The partially convertible rupee closed unchanged at 82.35 per dollar, having traded in an extremely narrow six paisa range all session. The RBI was likely selling dollars and receiving forwards through state-run banks as the central bank tries to keep the currency around 82.40

**—REUTERS** 

reserves have fallen to \$532.9 billion from a peak of \$642.5 billion last year. —**REUTERS** 

levels, traders said.

## Sundaram Home Fin sees potential in small biz loans

SAJAN C KUMAR Chennai, October 17

present.

SUNDARAM HOME FINANCE, which recently forayed into small business loans against residential properties, said the segment has the potential to grow well in the coming years. Based on the experience over

Phone no - 033-44559770/9758

Date:- 18.10.2022

Chetan Industries Limited

JTL Infra Limited

the next six months in Tamil Nadu, the company will assess and work out plans for further expansion within the state and outside, Lakshminarayanan Duraiswamy, MD, Sundaram Home Finance, told *FE* in an exclusive interaction.

The company's immediate plan is to open eight more

**Deputy General Manager** 

Department of Information Technology

... (Transferor Company/ Applicant Company 1)

.. (Transferee Company/ Applicant Company 2)

Remote E-Voting

Period

From: November 16.

2022 at 09:00 AM (IST

Till: November 18.

2022, at 05:00 PM (IST)

Remote E-Voting

Period

From: November 17,

2022 at 09:00 AM (IST

Till: November 19,

2022, at 05:00 PM (IST)

यूको बैंक 倒 UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office - II, Department of Information Technology 3 & 4, DD Block, Sector - 1, Salt Lake, Kolkata-700064

NOTICE INVITING TENDER

Bid for "Supply, Installation, Implementation and Maintenance

of Network Switches at Branch/Offices" is available on GeM Portal.

For any query, please contact Email - hodit.proc@ucobank.co.in,

सम्मान आपके विश्वास का | Honours Your Trust

FORM No. CAA-2

[Pursuant to Section 230 (3) and Rule 6 and 7)]

Before the Hon'ble National Company Law Tribunal Bench,

at Chandigarh,

Company Application No. (CAA) 47/CHD/CHD/2022

In the matter of Section 230 - 232 of Companies Act, 2013 read along with

Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

IN THE MATTER OF

Advertisement of notice of the meetings of the Secured Creditors and Unsecured

Creditors of Chetan Industries Limited; and the meetings of the Equity Shareholders

Notice is hereby given that by an order dated 26th September, 2022 ('Order') the

Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal ('NCLT/Tribunal') has

firected the meetings of the Secured Creditors and Unsecured Creditors of the

ransferor Company, and the meetings of the Equity Shareholders, Secured

Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company to be held for the

purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s)

he arrangement embodied in the Scheme of Arrangement for Amalgamation of Chetan Industries Limited ("Transferor Company") and JTL Infra Limited ("Transferee

Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme") under

n pursuance of the said order and as directed therein, notice is hereby given tha

the aforementioned meetings would be held through Video Conferencing ("VC") as

per the below mentioned schedule and the eligible participants are requested to

Schedule of Meetings:

In respect of Transferor Company/Applicant Company 1:

In respect of Transferee Company/Applicant Company 2:

Time of

Meetings

03:30 PM

12:30 PM

01:30 PM

The complete set of respective notices of the aforesaid meetings along with the

explanatory statements and requisite annexures have been sent to (a). all the

shareholders of the Transferee Company whose names appear in the register of

members / register of beneficial owners maintained by the depositories as or

07.10.2022; and (b). to the secured creditors / unsecured creditors whose name

appears as such in the books of the respective Companies as on 30.06.2022. The

Notices have been sent via email or courier (whose email id was not registered with

If so necessitated, and for the purpose of enabling dissemination of further

information, the aforementioned secured creditors/ unsecured creditors of each of

the applicant companies may update their email address by sending an email at

finance@jtlinfra.com. In case the email id of any Shareholder of the Transferee

Company is not updated, they may also contact Transferee Company's RTA at

For the purpose of the abovementioned meetings, the Transferor Company and the

Transferee Company have engaged Central Depository Services (India) Limited

("CDSL") for facilitating voting by electronic means, as the authorised agency. The

facility of voting by the Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors

using voting by electronic means will be provided by CDSL prior to the respective

meetings (remote e-voting facility) as well as at the time of respective meetings

(e-voting facility) whose names are recorded as such as on the cut-off dates

mentioned in the respective notices. An Equity Shareholder/Creditor who has cast

the vote prior to the meeting may also attend the meeting through VC but shall not

Copies of the said Notice, Explanatory Statement and the Scheme of arrangement

along with other annexures, under Sections 230-232 of the Companies Act, 2013

read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and

Amalgamations) Rules, 2016 can be obtained free of cost at the registered office of

the respective Transferor Company and Transferee Company between 11.00 AM (IST)

and 5.00 PM (IST) on all working days up to the date of the meeting and the same is

also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com, www.jtlinfra.com.

Further, the notices of each of the meetings of the Transferee Company are

additionally available on BSE Limited and Metropolitan Stock Exchange of India

Limited at www.bseindia.com and www.msei.in respectively. Since the meetings of

the Equity Shareholders and Creditors of the respective Applicant Companies are

being held through virtual mode, there will not be any physical attendance of the

Equity Shareholders and Creditors. Accordingly, the facility for appointment of

The Hon'ble Tribunal has appointed Mrs. Munisha Gandhi as the Chairperson, Mr

Vishal Aggarwal, as the Alternate Chairperson and Mr. Vipul Garg as the Scrutinizer

for all the aforementioned meetings. The Scheme, if approved in the aforesaid

meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble National

be entitled to vote again during their respective meetings.

proxies will not be available for the meeting.

Company Law Tribunal, Chandigarh Bench.

beetal@rediffmail.com for updating their email ids for receiving further updates.

10:30 AM

Meetings

Registered

Office, deemed

venue of the

meetings

through VC

Place of

Meetings

Registered

Office,

deemed

venue of the

meetings

through VC

Having its registered office at SCF 18-19, Sector - 28C, Chandigarh-160002

Having its registered office at SCF 18-19, Sector - 28C, Chandigarh-160002

Secured Creditors and Unsecured Creditors of JTL Infra Limited

Section 230-232 of the Companies Act, 2013.

Class of

Meetings

Secured

Creditors

Unsecured

Creditors

Class of

Meetings

Equity

Shareholders

Secured

Creditors

Unsecured

Creditors

the Company/Depository) on 17.10.2022.

attend their respective meetings at the scheduled time:

of Meetings | Meetings

Day & Date

Saturday,

November

2022

Day & Date

Meetings

Sunday,

20<sup>th</sup>

ovember

2022

exclusive small business loan offices in tier 3 and 4 towns in Tamil Nadu by March 2023, taking the total number of offices to ten.

likely to come down by over

■ Norms also require asset

reconstruction companies

to ₹300 crore from ₹100

could be challenging for

some of the smaller ones

to increase net owned funds

crore by March 2026, which

ipate as a resolution applicant

under the Insolvency and

Bankruptcy Code (IBC) as a

positive. The step will open up

new revenue stream for ARCs.

However, to be a resolution

applicant, ARCs will need net

owned funds of more than

₹1,000 crore, which only a few

entities may be able to raise.

Excluding National Asset

Reconstruction Company,

80% in some scenarios

Chennai-based NBFC Sundaram Finance, expects to achieve disbursements of Rs 10-15 crore from this segment by the end of financial year. It is dedicating an exclusive team to run and tap into this opportunity and will be hiring 50 people specifically for this segment over the next six months.

Sundaram Home Finance,

"This has been in the works for the last one year. We did test marketing in Madurai,

Phone: 0484 -2545011

Conducting a Market study and

Preparation of Detailed Project Report for

Setting Up of Anhydrous Aluminium

Name of Work

Chloride Plant

(A Government of Kerala Undertaking)

Kerala government e-tender portal http://etenders.kerala.gov.in

Amendments/Corrigendum if any will be published only in the website.

from this segment. That led us from home and loan against We have just launched an exclusive loan product for this segment whereby we will lend against residential property,"

monthly model.

Tirunelveli and Salem and received positive feedback to this strategic diversification property (LAP) loans to small the housing finance arm of business loans and is a new segment we have entered into. up to Rs 20 lakh to small business owners and traders

> upwards of 15% per annum. The tenure of these loans is likely to be 5-7 years. The EMI will be on conventional fixed

> > 2022 TCCL 516414 1 03/11/2022

Asst. General Manager (Project

The interest rates will be

Last date of

Submitting tende

### **FE BUREAU** Kolkata, October 17 **AFTER INSURANCE REGULA-TOR** Irdai imposed a penalty of ₹3 crore on Max Life Insurance for certain violations in a case pertaining to purchase and sale of shares by Axis Bank and group companies, the private sector insurer on Monday said

total penalty amount of ₹3 crore shall be remitted by Max Life Insurance by debiting the profit and loss account within a period of 21 days from the date of issuance of the order, alleging that the insurance company had not complied with the directions issued by it

of Axis Bank and its group Life has decided to pay the companies to make undue penaltyimposed by the IRDAI, profits/gains from purchase and sale of equity shares of the company, thereby misusing the dual relationship of the bank as a shareholder and corporate agent. In its order, the insurance

regulator also said the insur-

ance company had misrepresented to it regarding compliance with directions issued to obtain approval for transfer of shares to Axis Bank and group companies. "With a view to pave the

way for the future, including strengthening the long-term strategic partnership with Axis Bank and avoid unnecessary

and allowed the shareholders and long legal escalations, Max while it is of the belief of not committing any wrongdoing, according to a release issued by Max Life on Monday.

Analjit Singh, chairman of Max Life Insurance, said, "Max Life and its shareholders have always conducted their affairs in compliance with applicable laws and will work with all earnestness to create value for all its stakeholders."The transactions were undertaken in a bona-fide manner, Singh claimed, adding, keeping the best interest of the company and its stakeholders in mind, it has resolved to remit the pay-

ment towards the penalty.

### SALE NOTICE SHRI LAKSHMI COTSYN LIMITED (In Liquidation)

Liquidator: Mr. Rohit Sehgal Registered Office: 19/X-1, Krishnapuram, Kanpur, Uttar Pradesh- 208007 Email ID: iamrs101@gmail.com

Contact No.:+91 7011568767 (Mr. Rahul Nagar) Escalation: If the query is not responded on the phone number given above, then Text or Whatsapp message can be sent to +91-9811363220 E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction: 04th November, 2022 at 3:00 pm IST to 5:00 pm IST (With unlimited extension of 5 minutes each)
Last Date to deposit EMD and documents: 01st November, 2022 by 5:00 pm IST

Sale of Assets and Properties owned by Shri Lakshmi Cotsyn Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, vide order dated 1st July 2020. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

Block	Asset	Price (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Value (in Rs.)
A	Sale of Company as a Whole, having the following assets:  1. Full Rewari Bujurg Unit - Consisting of Land, building, plant & machinery and other assets.  2. Malwan - Denim Unit - Land & Building	80.10 Crores	6.05 Crores	50.00 Lacs
В	Rewari Bujurg Unit on a Standalone basis	48.60 Crores	3.65 Crores	30.00 Lacs
C	Rewari Bujurg Unit - Land & Building.	20.90 Crores	1.57 Crores	15.00 Lacs
D	Rewari Bujurg Unit - Plant & Machinery and other assets (Excluding Land and Building)	31.85 Crores	2.39 Crores	20.00 Lacs
Ε	Malwan - Denim Unit - Land & Building (Including Land & Building of Residential	34.10 Crores	2.56 Crores	20.00 Lacs

Terms and Condition of the E-auction are as under: service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger)

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approve

THE COMPLETE AND DETAILED INFORMATION ABOUT THE ASSETS OF THE COMPANY ARE AVAILABLE IN THE "E AUCTION PROCESS DOUCMENT" AS ANNEXURE -VITO THE DOCUMENT, WHICH IS AVAILABLE ON THE WEBSITES I.E https://ncltauction.auctiontiger.net. THIS SALE NOTICE MUST BE READ ALONGWITH THE The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and

Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on websites https://ncltauction.auctiontiger.net and http://www.shrilakshmi.in/ Contact: Mr. Ramprasad at +91-6351896834/079-61200586 8 6351896834 ramprasad@auctiontiger.net/ neha.gyani@auctiontiger.net/ support@auctiontiger.net (Ongoing to the link https://ncltauction.auctiontiger.net) interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one of the two options, (I)Company's name (Shri Lakshmi Cotsyn Limited), or by, (II) State and property type)

 a) In case there is at-least one Eligible Bidder for Block A, the e-auction of Blocks (from B to E) will stand cancelled: b) In case there is at-least one Eligible Bidder for Block B, the e-auction of Blocks (from C & D) will stand cancelled;

d) In case, the bidding for any block (as specified in 3(a), 3(b) & 3(c) is cancelled, then the eligible Bidders who have submitted their bid documents for such block(s) shall be informed about cancellation and all such Bidders shall have an option to revise their bid

In case there is at-least one Eligible Bidder for Block C and there is no bidder for Block D, then the e-auction of Blocks C will stand

documents and the EMD and participate in the bidding for other available Blocks as the case may be, provided they confirm the same in writing within 1(one) day from the date of receipt of information about cancellation of bids from the Liquidator and pay the balance EMD, if any, However, no fresh bid / EMD for participation in block A to Block E shall be entertained after 1st November 2022. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the title of property, dues o local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy

themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with prior appointmen contacting Mr. Rahul Nagar: 7011568767. The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the

Account of "SHRI LAKSHMI COTSYN LIMITED IN LIQUIDATION", Account No.: 50200050452182, HDFC Bank Limited, Branch The Peach Tree, C- Block, Sushant Lok1, Gurgaon 122002, IFSC Code: HDFC0002686, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of SHRI LAKSHMI COTSYN LIMITED IN LIQUIDATION' or give a Bank Guarantee for the EMD Amount as per Format A or Format B as given in the Complete E-Auction process document. 6. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Request Letter for participation in the E

Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5 Landline and Mobile Phone number (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III, the formats of these Annexures can be taken from the Complete E-Auction proces document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the address given below before 5:00 PM of 1st November 2022. The Name of the Eligible Bidders will be determined by the Liquidator to participate in e-auction on the portal (https://ncitauction.auctiontiger.net). The e-auction service provider (Auction tiger) will provide User id and password by email to

In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the reserve price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Liquidator The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders, who

have participated in the bidding process, shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder in accordance with terms specified under E-auction process document and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount - EMD Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder 9. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the local taxes, duties, rates

assessment charges, fees etc. in respect of the property put on auction. 10. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e

Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof. After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidde

only and will not be issued in any other name. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations made thereunder. 13. E-auction date & Time: 04th November, 2022 from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (with unlimited extension of 5 minutes each)

Rohit Sehgal Liquidator, Shri Lakshmi Cotsyn Limited- in Liquidation IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953 Address for correspondence: 581, 4th Floor, Sector - 27, Gurgaon, Haryana, 122002 Email ID: iamrs101@gmail.com, shrilakshmi@aaainsolvency.com Contact No.: 7011568767 (Mr. Rahul Nagar)

New Delhi

# Wall Street jumps as BofA results spark rally



**ANKIKA BISWAS & SHREYASHI SANYAL** October 17

WALLSTREET'S MAIN indexes jumped on Monday as Bank of America led a rally among lenders after reporting a smaller-than-expected drop in profit, with its new loans benefiting from higher borrowing costs. Bank of America Corp jumped 5.17% as the

lender's net interest income surged in its third quarter, even though it added \$378 million to its loan-loss reserves.

"Bank earnings have generally been good. Markets are loving Bank of America's earnings, but how you interpret that toward the rest of earnings season can be a little tricky, and how you interpret that vis-à-vis the health of the consumer," said Steve Sosnick, chief strategist at Interactive Brokers.

Bank of NY Mellon Corp also benefitted from higher interest rates, sending its shares up 4.48%.

Overall, higher rates boosted interest incomes for lenders in the third quarter, but turbulent markets choked off dealmaking and banks set aside more funds to brace for an economic slowdown. The S&P 500 banks index was up 3.43%. All the 11 S&P 500 sector indexes were higher with technology, communication services and consumer discretionary gaining between 3% and

Wall Street is deep in bear market territory, with economic indicators pointing to little signs of decades-high inflation cooling, but some analysts noted that stocks at such depressed levels could pave the way for short-term rallies.

"It's more just short-term technicals where you've got people overextended on the downside," said Jonathan Waite, fund manager at Frost Investment Advisors. Some traders pointed to seasonality factors also in play during October, which has historically seen stocks climb heading

into the end of the year. Shares of Goldman Sachs, which will post results on Tuesday, were up 1.96%, following reports of a plan to combine its investment bank-

**—REUTERS** ing and trading businesses.

### Place: Chandigarh financiale

Dated: 17.10.2022 Chairperson appointed by Hon'ble NCLT for the aforementioned meetings

Bids are invited by "Noida Power Company Limited having its registered office at Electric Sub-station, Knowledge Park-IV, Greater Noida -201310 (U.P.)" for procurement of 50 MW non-solar renewable power from 01.04.2023 to 30.09.2025 in accordance with Guidelines dated 30.01.2019 issued by Ministry of Power, GOI. Bid Document is available on DEEP Portal of www.mstcecommerce.com.

THE TRAVANCORE-COCHIN CHEMICALS LIMITED

P.B. No.4004, Udyogamandal P.O., Kochi-683 501, Kerala, India

CIN: U24299KL1951SGC001237, GSTIN: 32AAACT6207B1Z1

Email: projects@tcckerala.com, Website: www.tcckerala.com

NOTICE INVITING TENDER

Online bids (E-tender) are invited from reputed firms for the following works through

All the relevant details and the tender document can be downloaded from the site

CIN:U31200UP1992PLC014506

Notice Inviting Bids for Procurement of

Non-Solar Renewable Power on Medium Term basis

NOIDA POWER COMPANY LIMITED

The Company reserves the right to reject all or any of the Bids or cancel the bidding process at any stage without assigning any reasons whatsoever and without any liability.

For any clarification, contact at e-mail id powertrading@noidapower.com or mobile no. 9718804966.

Head (Power Purchase)

Megh Mayur Infra Limited (Formerly known as Poddar Infrastructure Limited, there before known as Transoceanic Properties Limited) Regd. Office: MHB-11/A-302, Sarvodaya Co-Operative Housing Society Ltd, Near Bhavishya Nidhi Building, Service Road, Khernagar, Bandra (E), Mumbai – 400051 CIN:L51900MH1981PLC025693 Website:www.meghmayurinfra.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND

SIX MONTH ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

Sr. No.	Particulars	Unaudited Quarter Ended 30.09.2022	Audited Year ended on 31.03.2022	Unaudited Quarter Ended 30.09.2021
1	Total income from operations (net)		-	
2	Net Profit / (Loss) for the period			
	(before Tax, Exceptional and/or			
	Extraordinary items)	-1.49	-10.99	-0.9
3	Net Profit / (Loss) for the period			
	before tax (after Exceptional			
	and/or Extraordinary items)	-1.49	-10.99	-0.9
4	Net Profit / (Loss) for the period			
	after tax (after Exceptional and/or			
	Extraordinary items)	-1.49	-10.99	-0.9
5	Equity Share Capital	630	630	630
6	Reserves (excluding Revaluation			
	Reserve as shown in the Balance			
	Sheet of previous year)		27.30	
7	Earnings Per Share of Rs. 10 Each			
	(before extraordinary items)			
	Basic:	-0.02	-0.17	-0.01
.	Diluted:	-0.02	-0.17	-0.01
8	Earnings Per Share of Rs. 10 Each			
	(after extraordinary items)			
	Basic :	-0.02	-0.17	-0.01
	Diluted:	-0.02	-0.17	-0.01

Sd/-

Place: Mumbai

Date:17.10.2022

Mrs. Munisha Gandhi

 The aforementioned results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 17th October, 2022. 2. The Company has adopted Indian Accounting standards (Ind AS) with effect from 1st

April,2017 and accordingly the above results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013. As per SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July,2016 the Company has presented Ind AS complaint financial results for the corresponding guarter and six Months ended on 30th September, 2022

3. The Auditors of the Company have carried out Limited Review of un-audited financial results for the quarter ended 30th September, 2022 as required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015. 4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirment) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (URL of the filings i.e. www.bseindia.com & www.meghmayurinfra.com)

As the Company has only one business segment, disclosure under Indian Accounting Standard 108 on "Operating Segment" issued by the Institute of Chartered Accountants of India is not applicable. For MEGH MAYUR INFRA LIMITED

Mitul Shah

**Managing Director** 

Place: Gurugram

Date: 18/10/2022

ई-नीलामी बिक्री सूचना

1 इंजीटेक ग्लोबल, मैं, ईजीटेक ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के

2013 की घारा 230-232 के मामले में। इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम ईजीटेक ग्लोबल सेवा में.

फॉर्म नं. सीएए-2

धारा 230 (3) और नियम 6 और 7 के अनुसार,

के मामले में

चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिमृतित लेनदारों और अप्रतिभृतित लेनदारों की बैठकों और

जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिमृतित और अप्रतिमृतित लेनदारों की

एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि 26 सितंबर, 2022 ('आदेश') के एक आदेश द्वारा नेशनल कंपनी लें

ट्रिब्युनल ('एनसीएलटी' / 'ट्रिब्युनल'), चंदीगढ़ बेंच ने कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 230–232 वे

तहत चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("इस्तांतरर्णकर्ता कंपनी") और जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड ("इस्तांतरिती

कंपनी") और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों ("योजना") के समामेलन के प्रबंधक की योजना

में शामिल प्रबंधन पर विचार करने और यदि उचित लगता है, अनुमोदन के लिए, संशोधन के बिना य

साथ के उददेश्य के लिए आयोजित इस्तांतरणकर्ता प्रतिभृतित लेनदारों और अप्रतिभृतित लेनदारों की

बैठक और इस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभृतित लेनदारों और अप्रतिभृतित लेनदारों की

उक्त आदेश के अनुसरण में और उसमें निर्देशित के अनुसार, एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोत्त बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की

जाएंगी और पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर अपनी संबंधित बैठकों में भाग लें

बैठकों की अनुसूची

बैठक का

समय

सुबह 10.30

हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 2 के संबंध में

बैठक का

दोपहर 03.30

दोपहर 12.30

दोपहर 01.30

व्याख्यात्मक विवरणों और अपेक्षित संलग्नकों के साथ उपरोक्त बैठकों के संबंधित सूचनाओं का पूरा सेट

(ए). हस्तांतरिती कंपनी के सभी शेयरधारकों को भेजा गया है. जिनके नाम 07.10.2022 को डिपॉजिटरी

द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं और (बी). प्रतिभृतित

लेनदारों / अप्रतिभृतिस लेनदारों जिनके नाम 30.06.2022 को संबंधित कंपनियों की पुस्तकों में प्रदर्शित है

को भेजी जा चुकी है। सचनाएं (जिसकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं थी)

यदि आवश्यक हो, और आगे की जानकारी के प्रसार को सक्षम करने के उद्देश्य से, प्रत्येक आवेदक

कंपनी के प्रत्येक उपरोक्त प्रतिभृतित लेनदार / अप्रतिभृतित लेनदार अपने ईमेल पते

finance@jtlinfra.com पर एक ईमेल भेजकर अपडेट कर सकते हैं। यदि हस्तांतरिती कंपनी के किसी

शेयरधारक की ईमेल आईढी अपडेट नहीं हैं, वे अपडेट प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी को

उपरोक्त बैठकों के प्रयोजन के लिए, इस्तांतरिती कंपनी और इस्तातरणकर्ता कंपनी ने अधिकृत एजेंसी

के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया)

लिमिटेड ('सीडीएसएल') को नियुक्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग का उपयोग करने वाले

इक्विटी शेयरचारक, प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित लेनदारों द्वारा वोटिंग की सुविधा संबंधित बैठकों के समय

के साथ-साथ संबंधित बैठकों (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा) से पूर्व सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी

जिनके नाम संबंधित सूचनाओं में वर्णित कट-ऑफ डेट्स तक दर्ज किए गए हैं। एक इक्विटी

शेयरधारक / लेनदार जिसने बैठक से पहले वोट डाला है, वह भी वीसी के माध्यम से बैठक में भाग ले

कंपनी (समझौता, प्रबंधन और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 230–232 के तहत तहत उक्त सूचना, व्याख्यात्मक विवरण और अन्य संलग्नकों के साथ प्रबंधन

की योजना की प्रतियां मुफ्त में संबंधित हस्तांतरणकर्ता कंपनी और हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय

में बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 11.00 बजे (भा.मा.स) और शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.)

के बीच प्राप्त की जा सकती हैं और यह सीढीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com,

www.jtlinfra.com पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, हस्तांतरिती कंपनी की प्रत्येक बैठक की सूचनाए

क्रमशः बीएसई लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः

www.bseindia.com और www.msei.in पर भी उपलब्ध हैं। चूंकि संबंधित आवेदक कंपनियों वं

इविचटी शेयरुवारकों और लेनदारों की बैठकें वर्षुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए

इविवटी शेयरघारकों और लेनदारों की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। इसके अनुसार, बैठकों के लिए

माननीय द्रिब्यूनल ने उपरोक्त बैठकों के लिए श्रीमती मुनिशा गांधी को अध्यक्ष, श्री. विशाल अग्रवाल को

वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री विपुल गर्ग को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। योजना, यदि उपरोक्त

बैठकों में अनुमोदित है, तो माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच के अनुमोदन के अधीन

सकता है, लेकिन अपनी संबंधित बैठकों के दौरान फिर से वोट देने का हकदार नहीं होगा।

beetal@rediffmail.com पर इस्तांतरिती कंपनी के आरटीए से भी संपर्क कर सकते हैं।

हस्तांतरणकर्ता कंपनी / आवेदक कंपनी 1 के संबंध में :

बैठक का

पंजीक्त

कार्यालय, वीसी

द्वारा बैठकों के

बैठक का

पंजीकत

कार्यालय,

वीसी द्वारा

बैठकों के

स्थान

.. (हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 2)

रिमोट ई-बोटिंग

अवधि

से : 16 नवंबर, 2022 से

सुबह 09.00 (भा.मा.स)

तक: 18 नवंबर, 2022

रिमोट ई-वोटिंग

से : 17 नवंबर, 2022 से

सुबह ०९.०० (भा.मा.स)

तक : 19 नवंबर, 2022

से शाम 05.00 (मा.मा.स)

शाम ०५.०० (भा.मा.स)

पंजीकृत कार्यालय : एससीएफ 18-19, सेक्टर-28सी, चंडीगढ़-160002

चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड

बैठकों की सूचना का विज्ञापन।

बैठकें करने का निर्देश दिया है।

प्रतिभृतित

लेनदार

अप्रतिभृतित

बैठक का

वर्ग

इविवटी

शेयरधारक

प्रतिभृतित

लेनदार

अप्रतिमृतित

बैठक का बैठक का दिन

व तिथि

शनिवार, 19

नवंबर, 2022

बैठक का

दिन व तिथि

रविवार 20

नवंबर, 2022

17.10.2022 को ईमेल या क्रियर के माध्यम से भेजी गई है।

प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय है: ई-92, 2रा तल, मस्जिद जिसका पंजीकृत कार्यालय : एससीएफ 18-19, सेक्टर-28सीं, बंडीगढ़-160002 मोठ, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048, द्वारा दिवालिया समाधान कर्मी **श्री अखिलेश गुप्ता** ... (हस्तांतरर्णकर्ता कंपनी/आवेदक कंपनी 1) जिनका कार्यालय है: ए-16/9, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057

> 2 **श्री गोपाल कृष्ण कालरा, पुत्र स्व. श्री सीडी कालरा**, निवासीः ई-92, 2रा तल, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048, साथ ही: ए-40, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, सेन्ट्रल दिल्ली-110020 **साथ ही**: बी-78, सेक्टर-83, नोएडा, उत्तर प्रदेश, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश

**श्रीमती नीलम कालरा, पत्नी श्री गोपाल कृष्ण कालरा,** निवासीः ई-92, 2रा तल, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048, **साथ ही**: ए-40, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, सेन्ट्रल दिल्ली-110020 **साथ ही**: बी-78, सेक्टर-83, नोएडा, उत्तर प्रदेश, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश

जैसा कि माननीय अधिकरण रु. 13,13,04,693/- के ऋणों की वसूली के लिए दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर समन्स/सूचना सहर्ष जारी किया है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार प्रतिवादियों को निम्न निदेश दिया जाता है। i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण दर्शाएं कि मांगी गई राहतों को क्यं न स्वीकार की

ii) मुल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के विवरणों को उदघाटित करना

iii) सम्पत्तियों के एटैचमेन्ट के लिए आवेदन की सुनवाई तथा निपटारे के लम्बित होने की स्थिति में मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने से आपको वंचित किया जाता है। vi) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी

या उद्घाटित किसी अन्य परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं v) आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों अथवा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी

परिसम्पत्तियों पर प्रतिभृति हित धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री

परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभृति हित निर्मित है एवं/ अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट

राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास प्रस्तुत करें तथा 2.11.2022 को 10.30 को पूर्वा. में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 30.8.2022 को दी गई।

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम ६ के अधीन]

ľ	संबंधि	त विवरण
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	20 अप्रैल 2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U36100HR2012PTC045685
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः कॉम्पैक हाउस, वीपीओ शादीपुर, खजूरी रोड, यमुना नगर, हरियाणा, 135001 भारत कॉर्पोरेट कार्यालयः 81—एएल, मॉडल टाउन, कालरा नेत्र अस्पताल के सामने, यमुना नगर—135001, हरियाणा, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	14 अक्टूबर, 2022 (आदेश की प्रति 17.10.2022 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	12 अप्रै ल 2023 (दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख से 180 वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	चंदन भाटिया पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02320/2021-2022/13614 एएफए वैध : 12.05.2023 तक
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई—मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	पता : मकान नं. 1321, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सैक्टर 29, फरीदाबाद, हरियाणा — 121008 ई.मेल : chandanbhatia.ip@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल	पता : मकान नं. 1321, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सैक्टर 29, फरीदाबाद, हरियाणा — 121008 ईमेल : cirp.compaqinternational@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिमतिथि	28 अक्टूबर, 2022
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप—धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नही
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के	लागू नही

(ख) अधिकत प्रतिनिधियों का विवरण पर (ख) लागू नही रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ पीठ ने दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को **कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने

का आदेश दिया है। (17.10.2022 को प्राप्त)। कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों काप्रमाण 28 अक्टूबर, 2022 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं । दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी । चंदन माटिया

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड दिनांक: 17.10.2022 पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P-02320/2021-2022/13614 स्थान: फरीदाबाद

इमेल :cb3038@canarabank.com # 9599662508, 9990131310, 9988757969

### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82/83 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त अभिषेक पुत्र चन्द्रपाल निवासी एफ-1/186, नजदीक मुर्गी मार्केट, सुन्दर नगरी, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 273/2016 घारा 379/411 भा.द.स. थाना मधु विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभिषेक फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा धारा 82 Cr.P.C. जारी की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 273/2016 धारा 379/411 भा.द.स. थाना मधु विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त अभिषेक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 03.01.2023 को या इससे पहले हाजिर हो।

> महानगर दण्डाधिकारी 08, कोर्ट नं. 49, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

**Ф нов** एचडीबी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड "राधिका", दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद—380009, गुजरात, पिन कोड: 380009, शाखा कार्यालयः ताजपुरिया पैलेस कजरिया टाइलों के ऊपर , कुकरैल पुल के पास, जर्लस्टा शोरूम के

DP/1668/ED/22

सरफसा आधानयम, 2002 का धारा 13(2) क तहत माग ना।टस अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण (ऋणों) / वित्तीय सुविधा (सुविधाओं) प्राप्त की है। आपके डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप आपका ऋण गैर–निष्पादित संपत्ति वे रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गटन और प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसकी विषय-वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, धारा 13(2) दिनांक के तहत मांग नोटिस क

**उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं का नामः** शाहबाज खान-एच.नं-115, आजाद नगर कॉलोनी, श्या – संपत्ति क्षेत्रः पूर्व–भूमि कैंट क्षेत्र, पश्चिम–सरकारी सड़क , उत्तर–भूमि जमुना और दक्षिण– भूमि सरस्वती

दिनांकः 17.10.2022 स्थान : उत्तर प्रदेश हस्ता / —अधिकत अधिकारी कते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड.

टाटा कैपिटल फाइनेशियल सविसेज लिभिटेड पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013, सीआईएन नं.: यू67190एमएच2008पीएलसी187552 शाखा पता : टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि., 7वां तल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झण्डेवालान एक्स., नई दिल्ली–110055

प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है वि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 1,70,71,173/–(रुपये एक करोड़ सत्तर लाख इकहत्तर हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज तथा 23.05.2021 से प्रभावी दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

संपत्तियों की अनुसूची निर्मित संपत्ति मकान/फ्लैटसंख्या ए.के.-1/98 (एचआईजी), क्षेत्र माप 167.45 वर्ग मीटर, जो अभय खण्ड-इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका अधिक विशिष्ट रूप में उस विक्रय विलेख दिनांकित

30.12.2009 में विवरण दिया गया है जो मधुर लता मिश्रा के पक्ष में निष्पादित है। **परिसीमन इस प्रकार** पूर्व— अन्य की संपत्ति, पश्चिम— सड़क, उत्तर— एचआईजी फ्लैट सं. 99, दक्षिण— एचआईजी फ्लैट सं. 97

सम्पतियों की ई-नीलामी - 25.11.2022 स्टार हाउस", एव-2, क्वॉट सर्कस, मिडल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाज होंल के पास, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-28844099 शुद्धिपत्र यह खाता A/c ए. एस. प्रिन्टर्स, बैंक ऑफ इंडिया, मीरा बाग शाखा में ई-नीलामी दिनांक 25.11 2022 के लिए फाइनेशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) दिनांक 14.10.2022 र यह शुद्धिपत्र A/c ए. एस. ग्रिन्टर्स, बैंक ऑफ इंडिया, मीरा बाग शाखा के खाते वे ई--नीलामी के लिए सुचीबद्ध सम्पति का विवरण गलत छपने से संबंधित सभी संबंधितों को दिया इसे निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है. क्र. उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/ सं. बंधक(ओं) का नाम संपति का विवरण प्रवासिय संपति भूतल पर स्थित मकान नं. 164, खसरा नं. 1010 / 560, गली नं. 7, बिहारी कॉलोनी गाँव चंद्रायली, शाहदरा, दिल्ली-110032 में है जो श्री संजीव नाथ आनंद के नाम है। परिमाप 104 वर्ग गज मेसर्स ए. एस. ग्रिन्टर्स मालिक-निधी आनंद (यह संपत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है।) गारंटर - संजीव नाध आनंद अवासिय संपति प्रथम तस पर स्थित मकान नं. 164, खसरा नं. 1010 / 560, गली नं. 7, बिहारी कॉलोनी गाँव चंद्रावली, शाहदरा, दिल्ली-110032 में है जो श्री संजीव नाय आनंद के नाम है। परिमाप 104 वर्ग (यह संपति बैंक के मौतिक कब्जे में है।) स्थान : नई दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, दिनांक :14.10.2022 बैंक ऑफ इंडिया

## द्यक्षिणी रेल्क्ष (निर्माण संगठन)

ई-निविदा सूचना संख्या 23-सीईसीएनएमएस-ओटी-ई-303695 दिनांकः 10.10.2022 ई-निविदा सूचना संख्या 24-सीईसीएनएमएस-ओटी-ई-302707 दिनांकः 10.10.2022 ई-निविदा सूचना संख्या 25-सीईसीएनएमएस-ओटी-ई-302709 दिनांकः 10.10.2022 ई-निविदा सूचना संख्या 28-सीईसीएनएमएस-ओटी-ई-306538 दिनांकः 10.10.2022 ई-निविदा सूचना संख्या 27-सीईसीएनएमएस-ओटी-ई-304031 दिनांकः 12.10.2022 ई-निविदा सूचना संख्या 28-सीईसीएनएमएस-ओटी-ई-304036 दिनांकः 12.10.2022 ई-निविदा सूचना संख्या 29-सीईसीएनएमएस-ओटी-ई-304040 दिनांकः 12.10.2022 ई-निविदा सूचना संख्या 30-सीईसीएनएमएस-ओटी-ई-307335 दिनांकः 12.10.2022

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से मुख्य अभियंता, निर्माण, दक्षिणी रेलवे, एगमोर, चेन्नई–600 008 द्वारा हमारे पोर्टल www.ireps.gov.in में दी गयी निविदा आमंत्रण सूचना (निआस्) के अनुसार निम्नलिखित कार्य(याँ) के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदक(कों) / ठेकेदार(रों) जो निविदा हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें पोर्टल www.ireps.gov.in पर नामांकित होने की आवश्यकता है तथा केंवल ऑनलाइन निविदायें ही स्वीकार्य होंगी।

### कार्य का नाम

नागापट्टिनम और तिरुधुराईपुंडी (वाया) तिरुक्कुवलाई को जोड़ने वाली प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडी के बीच सीएच.27100 से सीएच.31100 में प्रतिधारक दीवाल के निर्माण और किनारे बनाने में 6 मिमी स्टोन मेटल विप्स की आपूर्ति एवं फैलाव करना, पारंपरिक ट्रैक ब्लैंकेटिंग, मोडनमा नाली बनाकर तथा उसकी विधिवत संस्थापना करके किनारे में मुदा कार्य करना (दो लिफाफा प्रणाली)।

नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडी (वाया) तिरुक्कुवलाई को जोड़ने वाली प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। तिरुथुराईपुंडी और तिरुक्कृवलाई (तिरुक्कृवलाई यार्ड रोड 1 और 2 सहित) के बीच रीएच.21600 से सीएच.23100 में मोड़नुमा नाली की विधियत व्यवस्था और स्थापना करके किनारे बनाने के लिए मुदा कार्य करना (दो लिफाफा प्रणाली)।

नागापट्टिनम और तिरुधुराईपुंडि (वाया) तिरुक्कुवलाई को जोड़ने वाली प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडी के बीच लघु पुलों (संतुलनकारी कार्य) सीएच.3000 से सीएच.36500 का प्रस्तावित निर्माण (दो लिफाफा प्रणाली)।

नागापट्टिनम और तिरुधराईपुंडी (वाया) तिरुक्क्वलाई को जोडने वाली प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। नागापट्टिनम और तिरुथराईपंडी के बीच सीएच: 8000 से सीएच: 13000 में ब्लैंकेटिंग, मोडनुमा नाली की विधिवत व्यवस्था और स्थापना करते हुये किनारे में मुदा कार्य, प्रतिधारक दीवाल का निर्माण, ६ मिमी स्टोन विप्स की आपूर्ति एवं उसे फैलाने का कार्य करना (दो लिफाफा प्रणाली)। मद्रै और तुतीकोरिन (वाया) अरुप्पकोट्टई के बीच प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। मेलमरुद्र और पंडालकड़ी स्टेशनों के बीच 1 x 12.20 मीटर 'टाइप पीएससी गर्डर के रूप में विभिन्न स्थानों पर दीर्घ पूलों का प्रस्तावित निर्माण (दो लिफाफा प्रणाली)।

मद्रै और तुतीकोरिन (वाया) अरुप्पकोट्टई के बीच प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। मेलमरुद्र और विलाधिकलम स्टेशनों के बीच 2 x 18.30मी, 'यू प्रकार, 3 x 18.30मी, 'यू' प्रकार, 4 x 18.30मी. 'यू' प्रकार और 5 x 18.30मी. 'यू' प्रकार के रूप में विभिन्न स्थानों पर दीर्घ पुलों। का प्रस्तावित निर्माण (दो लिफाफा प्रणाली)।

मदुरै और तूतीकोरिन (वाया) अरुप्पुकोहुई के बीच प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। कुलाथुर और

विलाथिकुलम स्टेशनों के बीच 25 x 18.30मी. 'यू' प्रकार के दीर्घ पुलों का प्रस्तावित निर्माण। सेलम और ओमलूर के बीच ट्रैक का दोहरीकरण – सेलम और मैग्नेसाइट स्टेशनों के बीच

रटील वायर रोप नेटिंग और घेन लिंक मेश नेटिंग के साथ कटिंग क्षेत्रों में ढलानों का सृदृढीकरण करके प्रस्तावित ट्रैक का संरक्षण।

समापन अवधि बोली प्रतिभृति/ समापन तिथि 15:30 बजे 354812784.64 1924100.00 12 02.11.2022 101676937.67 658400.00 12 02.11.2022 138853819.06 12 844300.00 02.11.2022 1947500.00 12 02.11.2022 359504925.26 277391231.14 1537000.00 04.11.2022 237198372.52 1336000.00 18 04.11.2022 198601869.99 1143000.00 18 04.11.2022

43668159.54 368400.00 04.11.2022 अन्य भावी विवरणों के लिये कृपया पोर्टल www.ireps.gov.in का संदर्भ ग्रहण करें अथवा कार्यालय : मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण, ई.वी.आर. हाई रोड, एगमोर, चेन्नई-600 008

मुख्य अभियंता (निर्माण), एगमोर, चेन्नई-600 008

पंजाब नैशनल punjab national bank ..the name you can BANK upon!

Follow us on : twitter.com/GMSRailway सर्कल सस्त्र केंद्र, सर्कल कार्यालय बुलंदशहर, इमेलः cs8212@pnb.co.in

दूरभाषः 8171640088

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता के लिए 60 दिवसीय सूचना

आप सभी को अधोवर्णित प्रतिभूतियों के अंतर्गत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ने सरफॉएसि अधिनियम के तहत आप में से प्रत्येक के विरुद्ध कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी हैं और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सुचना आप में से प्रत्येक को पृथक रूप में निम्नांकित तिथि को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित की जा चुकी थी, परंतू सुचना आपको प्राप्त ही नहीं हो पाई। अतः आप में से प्रत्येक को एतदद्वार संयुक्त एवं पृथक रूप में यह सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों की समयावधि में निम्न विवरणित बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्न वर्णित संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सूचना आपको बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य उपाय के पूर्वाग्रह के बिना सम्बोध्य है। ऋणकर्ताओं एवं गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न वर्णित संपत्ति का लेन–देन न करें

तथा इन संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, निर्धारित बकाया धनराशियों तथा इन धनराशियों पर ब्याज हेतू पंजाब नैशनल बैंक के प्रभाराधीन होगा। कृपया यह सूचना भी प्राप्त कर लें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप इस सूचना की प्राप्ति के उपरांत उपरोक्त संदर्भित किसी भी प्रतिभूत परिसंपित्तियों का बैंक की पूर्व लिखित सहमित के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस सांविधिक निषेध / प्रतिबंध का जाता है अथवा उन्हें पट्टे पर दिया जाता है तो विक्रयगत आय अथवा वसूलीगत आय बैंक में/उसके पास जमा/प्रेषित होगी। आपको ऐसे वसूलीकरण/आय के समुचित खाते को बनाकर रखना होगा।

यदि कोई उल्लंघन होता है, तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार ऐसा होना एक अपराध है। यदि किसी कारणवश, प्रतिभूत परिसंपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत विक्रय किया कृपया इस सूचना के अंतर्गत निर्गत इस मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रिय गतिविधियों से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में आपको समस्त लागतों एवं परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।

क्र. सं.	शाखा कार्यालय	1. खाता संख्या, 2. सुविधा की प्रकृति एवं राशि, 3. मांग सूचना की तिथि, 4. बकाया राशि (रु.)	ऋणकर्ताओं / गारंटरों का नाम एवं पता	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण			
1.	<b>शा.का.ः आवास विकास,</b> बुलंदशहर	<ol> <li>खाता सं: 656400NC00000192, 656400NC00000235 एवं 6564009900000115</li> <li>(क) सावधि ऋण - रु. 8,54,000/- (ख) सावधि ऋण - रु. 5,91,200/- (ग) ओवरङ्राफ्ट - रु. 15,00,000/-</li> <li>19.05.2022</li> <li>(क) रु. 9,35,003.00 + 01-05-2022 से प्रभावी ब्याज. अन्य लागत एवं व्यय (ख) रु. 6,54,279.00 + 01-05-2022 से प्रभावी ब्याज. अन्य लागत एवं व्यय (ग) रु. 15,44,660.00 + 01-05-2022 से प्रभावी ब्याज. अन्य लागत एवं व्यय</li> </ol>	1. श्री अंकित कुमार पुत्र श्री बृजपाल सिंह <b>निवासी</b> 11/570, <b>राधा नगर, बुलंदशहर 203001</b> (उधारकर्ता/बंधककर्ता)	त्रा आकर्त कुमार के नाम पर आर इस प्रकार परिसीमित है: पूर्व— भूखंड सं. सी 159 पश्चिम— भूखंड सं. सी 161 उत्तर— सड़क दक्षिण— भूखंड सं. सी 165 * नामाधिकार विलेख के अनुसार सम्पत्ति विवरण			
दिनांकः 17.10.2022, स्थानः बुलंदशहर आपका विश्वासपात्र, प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैं							

पंजाब नेशनल बैंक

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

कब्जा सूचना [धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8(1)]

सर्किल सस्त्र सेंटर, सर्किल कार्यालय बुलन्दशहर, ई-मेल : cs8212@pnb.co.in; दूरभाष : 81716640088 जैसा कि वित्तीय आस्तियों के प्रवर्तन एवं प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे तालिका में उल्लिखित तिथियों पर कथित सूचना(ओं) की की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/रों से तालिका में

उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी। कर्जदार के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों/जमानितयों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कजदार/रो तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यो से किसी प्रकार का सव्यवहार न करने को चेतावनी दो जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का सव्यवहार राशि तथा पूर्ण भुगत
तक उस पर ब्याज के लिए <b>पंजाब नैशनल बैंक</b> के प्रभार का विषय होगा।
अचल सम्पत्तियों का विवरण

ı		अचल सम्पात्तया का विवरण					
	क्र.	शाखा	खाते का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग	नोटिस चिपकाकर	मांग सूचना की तिथि
	सं.	का नाम			सूचना की तिथि	<del></del>	तक बकाया राशि
	1.	सिविल लाइन्स बुलन्दशहर	श्री राकेश कुमार श्रीमती बॉबी कुमारी खाता 666100NC00005368 तथा 6661009900001125	. 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		19.05.2022	Rs. 26,24,480.28 (रुपये छब्बीस लाख चौबीस हजार चार सौ अस्सी एवं अट्ठाईस पैसे मात्र) + 01.07.2022 से ब्याज

सं.	का नाम			सूचना की तिथि	विषयकां करने कब्जा करने की तिथि	तक बकाया राशि
1.	सिविल लाइन्स बुलन्दशहर	श्री राकेश कुमार श्रीमती बॉबी कुमारी खाता 666100NC00005368 तथा 6661009900001125			19.05.2022	<b>Rs</b> . 26,24,480.28 (रुपये छब्बीस लाख चौबीस हजार चार सौ अस्सी एवं अट्ठाईस पैसे मात्र) + 01.07.2022 से ब्याज
2.	सिविल लाइन्स बुलन्दशहर 17.09.2	रिषभ सिंह पुत्र सुनील सिंह 006900SA00000027, 006900SA00000018, 006900SB00000015, 006900AG00000177	श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी श्री सुनील सिंह के नाम पर अनंत एन्क्लेव कॉलोनी गांव वलीपुरा तहसील और जिला बुलंदशहर में स्थित प्लॉट संख्या 6 क्षेत्र 143.61 वर्ग मीटर की संपत्ति 143.61 वर्ग मीटर की संपत्ति 143.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का विक्रय विलेख पुस्तक 1 खंड 4306, पृष्ठ 245-262 में दिनांक 27.05.2015 को क्रम संख्या 5502 पर सुषमा सिंह के पक्ष में दर्ज। निम्नानुसार सीमाबद्धः पूर्वः प्लॉट नंबर 5 लाखन सिंह, पश्चिमः प्लॉट नंबर 4,5,6,7 उत्तरः प्लॉट नंबर 7 अजय कुमार अग्रवाल, दक्षिणः रोड * टाइटल डीड के अनुसार संपत्ति का विवरण।	19.05.2022	कते पंजाब <del>।</del>	रु. 1,18,44,209.30 (रुपये एक करोड़ अठारह लाख चौवालीस हजार दो सौ नौ एवं तीस पैसे मात्र) + 01-04-2022 से ब्याज + अन्य लागत एवं व्यय
ाताश	थ : 17.09.2 ————	022, स्थान : बुलन्दशहर	आधकृ	त प्राधिकारा	, कृत पंजाब	नशनल बक, साकल सस्त्र हड (मुख्य प्रबन्धक
250						9

## पंजाब नैशनल बैंक

प्रॉक्सी की नियक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

स्थान : चंडीगढ

दिनांक : 17.10.2022

मोन : 8283810870, 9971720088, ई-मेलः cs8228@pnb.co.in

शेष खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

## िनरा बैंक Canara Bank 🇀

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001,

शुद्धि पत्र

जनसत्ता (पेज नं. 04) में छपे विज्ञापन अधल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेत् बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता सूचित किया जाता है कि शाखा मेरठ रोड गाजियाबाद (402100) का खाता मंजू राणा पत्नी मनोज कुमार राणा, (क्र. सं. 10) की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 19. 10.2022 को होनी प्रस्तावित है, हम इस खाते की सम्पत्ति की ई-नीलामी को रद्द / निरस्त

दिनांक 09.09.2022 को इस समाचार पत्र

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

# इंडियन बैंक

**Indian Bank** 

एसएएम शाखा दिल्ली, प्रथम तल, 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष सं. 011.40230166, मोबाइल नं. 9572326444 इमेल: armbdelhi@indianbank.co.in

"परिशिष्ट-IV-ए" (नियम 8(6) का प्रावधान देखें)

ALLAHABAD अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक अधिग्रहण इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक), एसएएम शाखा दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय 'जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर 21.11.2022 को किया जाएगा। यह विक्रय मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स, अपने स्वामी—श्री अनिल यादव पुत्र जगमाल यादव के माध्यम से, पताः मकान सं. 2969, सेक्टर-23, गुड़गांव-122017

संपत्ति के विस्तृत विवरण

🙇 इलाहाबाद

गारंटरगण :

श्री अनिल यादव पुत्र जगमाल सिंह यादव, मकान सं. 2970, सेक्टर—23, गुड़गांव—122017 श्रीमती अंतिमा यादव पत्नी श्री पवन राव, मकान सं. 1246–पी, सेक्टर–9ए, गुड़गांव–122001

की ओर से इंडियन बैंक, एसएएम शाखा, दिल्ली (प्रतिभूत ऋणदाता) को देय—भुग्तेय 14.10.2022 के अनुसार रु. 2,18,97,481 / — (रुपये दो करोड़ अट्ठारह लाख सत्तानबे हजार चार सौ इक्यासी मात्र) की एक राशि और 27.09.2019 से प्रभावी होकर के वसूलीकरण तक बकाया राशि पर ब्याज एवं अन्य व्ययों की वसूली करने के लिये किया जायेगा। ई—नीलामी विधि के माध्यम से विक्रय हेतु लाई जाने वाली संपत्ति के विशिष्ट विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश

c	भूमि एवं भवन- मकान सं. 1246-पी, सेक्टर-9ए, अर्बन एस्टेट, गुड़गांव-122001, माप लगभग 175.5 वर्ग मीटर, जो अंतिमा यादव के			
	म पर तथा <b>इस प्रकार परिसीमित है :</b>			
	पूर्वोत्तर— सड़क 💢 दक्षिण पूर्व— भूखंड सं. 1247 (रिक्त)			
	दक्षिण पश्चिम— संपत्ति सं. १२४५ - पश्चिमोत्तर— प्रवेश / सड़क			
ऋणभारों के विवरण, स्थानीय स्व शासन, बिजली,	बैंक को ज्ञात नहीं हैं			
संपत्ति कर, नगर निगम कर इत्यादि की बकाया				
देनदारियां, यदि कोई, जो बैंक को ज्ञात हैं				
आरक्षित मूल्य	<b>रु. 2,21,00,000</b> /- (रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख मात्र)			
धराज राशि	रु. 22,10,000/- (रुपये बाईस लाख दस हजार मात्र)			
बोली वृद्धिशील राशि	रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र)			
ई—नीलामी की तिथि एवं समय	<b>21.11.2022</b> को 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक			
बोलीदाताओं को सलाइ दी जाती है कि ऑनलाइन बोली में प्रतिभागिता करने के लिए इमारे ई—नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लि की वेबसाइट अर्थात (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibani) देखें।				

तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. 033-23400020/23400021/23400022 और सेवा प्रदाता हेल्प डेस्क पर उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। एमएसटीसी लि. के साथ पंजीकरण स्थिति के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर तथा धराज स्थिति के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर संपर्क करें। संपत्ति विवरणों तथा संपत्ति के चित्र और नीलामी के नियमों व शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in पर जाएं और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरणों के लिए कृपया हेल्प लाइन नंबर '18001025026' तथा '011-41106131' पर संपर्क करें।

दिनांकः 15.10.2022 प्राधिकृत अधिकार्र

www.readwhere.com

( 3रे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित )

आदेशानुसारः सुश्री दीपाक्षी राणा

के अनुसार आप पर वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित की जा रही है।

विवरण, नोटिस में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि और प्रतिभूतियों का विवरण नीचे दिए गए हैं: र्गज, बरेली—243001 उत्तर प्रदेश और इसके अलावा—बांके हाफिजपुर मरूफ कटरा चाँद खान बरेली–243001– मोहम्मद शरीफ खान –न्यू सकलानी ऑटो मोबाइल 115 आजाद नगर कॉलोनी पीलीभीत बाई पास रोड श्याम गनी बरेली उत्तर प्रदेश- 243001; ऋण खाता संख्या-3028634; ऋण राशिः र 2505373 / (रुपये पच्चीस लाख पांच हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र), **मांग सूचना** दिनांकः 29.09.2022; दावा की गई राशिः २७.०९.२०२२ तक रु.२४२०१९९ / –(चौबीस लाख बीस हजार एक सौ निन्यानवे रुपये मात्र) और वास्तविक वसूली तक भविष्य संविदात्मक ब्याज के साथ आकिस्मक व्यय, लागत और शुल्क आदि ; एनपीए दिनांकः 02.09.2022; प्रतिभूति का विवरणः हाजियापुर /कटरा चाँद खान खान तहसील और जिला बरेली में स्थित 100.00 वर्ग मीटर का घर और – निम्न रूप में चौहदी(इसके बाद प्रश्न में संपत्ति कहा जाता हैं

इसलिए आप उधारकर्ता. सह—उधारकर्ताओं और गारंटरों को इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई राशि का पूर्ण भूगतान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए विवश होना होगा। (उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभृति संपत्तियों को भुनाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।) कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा हमारी सहमति के बिना उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है और अधिनियम की धारा 13(13) के किसी भी गैर-अनुपालन पर उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री कुश कपूर फोनः 9838076150, विकास आनंद – 9711010384 से संपर्क करें।

# (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित 22.05.2021 निर्गत की है, जिसमें ऋणकर्ता एव सह—ऋणकर्ताओं / गारंटरों, अर्थात् (1) दीप शिखा मिसरा अर्थात् दीपशिखा मिश्रा, ६एच, टाईप–४, एमएर प्लैट्स, मिंटो रोड, कॉम्प्लेक्स मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002, मोबाइल : 9999883990, यहां पर भी : मकान संख्या ए के-1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खण्ड-1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्त प्रदेश—201014, **(2) मधुर लता मिश्रा अर्थात् मधुर लता,** मकान संख्या ए के—1 / 98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खण्ड–1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, यहां पर भी : 6एच, एम.एस.डी. फ्लैट्स, मिंट रोड, नई दिल्ली−110002 (3) प्रियंका मिश्रा, मकान सं. ए के−1 / 98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खण्ड−1, एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201014, **(४) मैसर्स राघवेंद्र हॉस्पिटल,** अपने स्वामी के माध्यम से 243, शक्ति खंड—3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201014, **(5) स्वर्गीय अनुराग मिश्रा** के विधिक उत्तराधिकारी, ६एच, टाईप–४, एमएस फ्लैट्स, मिंटो रोड, कॉम्प्लेक्स मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002, यहां प भी : स्वर्गीय अनुराग मिश्रा के विधिक उत्तराधिकारी, मकान सं. ए के-1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खंड–1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014 को ऋण खाता सं. 21779423 द्वारा 22.05.2021 के अनुसार रु. 1,70,71,173/-(रुपये एक करोड़ सत्तर लाख इकहत्तर हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) की राशि का ब्याज तथा दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि के साथ उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर

ऋणकर्तागण निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं क विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसग निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षिक्तयों के प्रयोगान्तर्गत, 13 अक्टूबर 2022 को, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

दिनांकः 18.10.2022 स्थानः गाजियाबाद

कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध (एआरएम)॥ शाखा ए-27, 1ला तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016

(क) वेब लिक: https://ibbi.gov.in/home/downloads

परिशष्ट-10 कब्जा सूचना [धारा-13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट 54) (यहां के बाद ''अधिनियम' वर्णित) के अंतर्गत **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.8.2019 जारी कर ऋणधारक मै. जस्सी एंड क. (पार्टनरशिप फर्म), द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री जगदीश सिंह, पुत्र स्व. श्री कुलदीप सिंह तथा श्रीमती गुरशरण कौर, पत्नी श्री जसविन्दर सिंह, निवासी : सी–8, एमआईजी डीडीए फ्लैट्स, गोल व्यू अपार्टमेन्ट, साकेत, नई दिल्ली-110047 (यहां के बाद ''प्रॉप्टाइटर एवं गारंटर्स'' वर्णित ) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 69,41,475.39/- (रुपये उन्हत्तर लाख इकतालिस हजार चार सौ पचहत्तर एवं पैसे उन्तालिस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सृचित किया जाता है कि आज, 15 अक्टूबर, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी

रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध अक्षमता

प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)

14. (क) संबंधित प्रपन्न उपलब्ध है

हस्ता./

श्रीमती मुनिशा गांधी

उपरोक्त बैठकों के लिए

माननीय एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 75 लाख तथा उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण श्री जिसन्दर सिंह के नाम में प्लॉट नं. 149, ब्लॉक सी, महाबीर हनुमान उद्योग पार्क, ग्राम हसनपुर मसूरी, डुण्डेहेड़ा, तहसील खेकरा, जिला बागपत में औद्योगिक

चौहद्दी : उत्तर : रोड दक्षिण : अन्य सम्पत्ति पूर्व : प्लॉट नं. 150 पश्चिम : मै. महावीर हनुमान की सम्पत्ति तिथि: 15.10.2022 स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतू ई-नीलामी विक्रय सूचना

एस्टेट, गुड़गांव—122001, माप लगभग 175.5 वर्ग मीटर, जो अंतिमा यादव के	
दक्षिण पूर्व— भूखंड सं. 1247 (रिक्त) पश्चिमोत्तर— प्रवेश / सड़क	

बोलीदाताओं को सलाह है कि वे https://ibapi.in एवं www.mstcecommerce.com की वेबसाइट पर संपत्ति की ढूंढ करते समय उपरोक्त वर्णित संपत्ति आईडी संख्या का प्रयोग करें।



